FEDDERS ELECTRIC AND ENGINEERING LTD.

(Formerly Fedders Lloyd Corporation Ltd.) C-15 RDC, Raj Nagar, Ghaziabad-201001 Uttar Pradesh (INDIA) Tel. : 91-9810266747 CIN : L29299UP1957PLC021118



#### February 13, 2025

To,

BSE Limited Department of Corporate Services PhirozeJeejeebhoy Towers, Dalal Street Mumbai-400 001 Scrip Code: 500139 NSE Limited Department of Corporate Services Exchange Plaza, Bandra, Kurla Complex, Bandra (West), Mumbai-400 051 Scrip Code: FEDDERELEC

#### ISIN: INE249C01011 – FEDDERS ELECTRIC AND ENGINEERING LIMITED

#### Sub: Intimation under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

In pursuant to Regulation 47 (1) (b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Please find enclosed copies of Unaudited Financial Results (Standalone) of the Company for the Third Quarter ended December 31st, 2024 published in newspaper viz. The Pioneer (English Newspaper) & Pioneer (Hindi Newspaper) on February 13, 2025.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours faithfully, For Fedders Electric and Engineering Limited

FEEL

Vishal Singhal Managing Director DIN: 03518795



# **SUPREME COURT SLAMS PARASITES**

PIONEER NEWS SERVICE NEW DELHI

n political parties promising freebies ahead of polls, the Supreme Court (SC) on Wednesday said instead of bringing people into the mainstream for national development, Aare we not creating a class of parasites?". A bench of Justices BR Gavai and Augustine George Masih said it would be better to make people a part of the society's mainstream and contribute towards national development.

"Rather than promoting them to be a part of the mainstream of the society by contributing to the development of the nation, are we not creating a class of parasites?" it asked. Justice Gavai went on to add, "Unfortunately, because of these freebies, which just on the anvil of elections, are declared, like 'Ladki Bahin' and other schemes, people

are not willing to work

The top court was hearing a matter concerning the right to shelter of homeless persons in urban areas and said people got free rations and money without working. "We quite appreciate your concern for them but would it not be better to make them a part of the mainstream of society and permit them to contribute to the development of the nation?" the bench asked. Advocate Prashant Bhushan,

appearing for one of the petitioners, said there was hardly anybody in the country who did not want to work, if they had work. The judge said, You must be having only one sided knowledge. I come from an agricultural family. Because of the freebies in Maharashtra, which they just announced prior to elections, agriculturists are not getting labourers." The court, however, said it did not want to debate.

Judges said everybody, including attorney general R Venkataramani, was on the same page that providing shelter to the homeless merited due attention. "But at the same time, should it not be balanced?" the bench asked. Venkataramani said the Centre was in the process of finalising the urban poverty alleviation mission, which would address various issues, including the provision of shelter for the urban homeless.

The bench asked him to verify from the Centre the time frame within which the scheme would be applicable and also place on record the aspects covered by it.

"In the meantime, the attorney general is also requested to take instructions as to whether till the implementation of the said scheme, the Union of India would continue with the National Urban Livelihoods Mission," it said.

The bench further asked the Centre to collate information from all states for the consideration of the issue on a pan-India basis.

One of the petitioners during the hearing said it was unfortunate that the cause of the homeless was not being addressed as it was last on the priority.

The bench was irked when he claimed the authorities showed compassion only for the rich, not the poor.

"Don't make a speech of Ramlila Maidan in this court," said Justice Gavai, "And don't make unnecessary allegations. Don't make a political speech here. We won't permit our courtrooms to be converted into a (place of) political battle."

The judge went on to add, "How do you say the compassion is shown only for the rich? Even for the government, how can you say this?" Painting a picture that the

government did not do anything or show concern for the poor was not in a good taste, the court added.

Bhushan said as per a note placed before the bench, as on December 4, 2024, a total of 2,557 shelters was sanctioned by the States or Union Territories and 1,995 shelter homes were functional with a capacity of 1.16 lakh beds. He said a survey showed there were about 3 lakh

urban homeless in Delhi alone. Bhushan said as per the Delhi Urban Shelter Improvement Board, the total capacity of the shelters was 17,000 persons of which only 5,900 such facilities had beds.

The DUSIB counsel said the board had 197 shelter homes running in Delhi as on date with a total capacity

of 17,000 persons. In the last four years, he said, the

average maximum occupancy was 5,500 in all shelter homes.

Continued on page 2

### MAGHI PURNIMA: **2 CRORE DIPS**

More than two crore devotees took a dip in the Sangam till 6 pm on Wednesday on the occasion of Maghi Purnima. With the 'snan' on Maghi Purnima, another auspicious day for holy bath, the monthlong 'Kalpavas' will be ending and around 10 Lakh 'Kalpavasis' will start leaving the Maha Kumbh. The administration has requested them to follow traffic rules and use only authorised parking spaces. Overall since the start of the Maha Kumbh, over 47 crore people have taken a dip in the Sangam. The Maha Kumbh will conclude on February 26 with the final 'Amrit Snan' on the occasion of Mahashivratri. Meanwhile, Adityanath greeted everyone

on the holy bathing festival while the UP government has also launched a safety drive for the pilgrims



Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron at the Mazargues Cernetery to pay their respects to the fallen heroes, in Marseille

# Modi, Macron walk together global issues, including the UNSC matters.

#### PTI PARIS

Prime Minister Narendra Modi and French French President Emmanuel Macron on Wednesday called for trade enhancing and investment ties between the two countries and committed to further deepening their engagement in the Indo-Pacific and various global forums and initiatives.

After their wide-ranging talks, the two leaders also underlined their commitment to concrete actions to ensure that the global AI sector can drive beneficial social, economic, and environmental outcomes in the public interest.

global and regional issues. This was followed by delegation-level talks after A joint statement issued after the meeting here said the talks covered a full spectrum arrival in Marseille. The two leaders reviewed of bilateral relations, as well as cooperation in the strategic areas of defence, civil nuclear key global and regional issues. The two leaders stressed an energy and space. They also urgent need for reform in the discussed ways to strengthen United Nations Security Council and agreed to collaboration in the fields of

technology and innovation. Continued on page 2

French President Macron

reiterated France's firm

support for India's permanent membership of the UNSC.

The two leaders reaffirmed

their strong commitment to

Partnership while noting that

it has steadily evolved into a

multifaceted relationship over

Prime Minister Modi flew

together from Paris to

Marseille in the French

Presidential Aircraft last evening and held discussions

here on the full spectrum of

bilateral relations and key

Strategic

India-France

the past 25 years.

### **CBI** arrests **DTC officials**

STAFF REPORTER NEW DELHI

The Central Bureau of Investigation (CBI) has arrested six officials of the Delhi Transport Corporation (DTC) on charges of corruption and bribery. This is the first major crackdown by the apex investigating agency in the national capital after the Aam Aadmi Party (AAP) lost

## **UPSC** updates registration system online

#### PIONEER NEWS SERVICE NEW DELHI

The Union Public Service Commission (UPSC) has introduced certain changes in its online application system for the civil services preliminary exam after complained of aspirants technical glitches while through applying to an official according notice. The Commission had recently extended the last date to apply for the civil services preliminary exam 2025 till February 18.

The UPSC said in the notice that some entries have been made "editable" in the onetime registration for filling up of the online application.

"In view of the queries/difficulties raised by the the candidates in filling up the online application form for the civil services examination, 2025, the Commission has decided the following changes in the onetime registration (OTR) for filling up of the online application," it said.

The candidates are "not allowed to make any



### Kerala ragging turns serious

#### PIONEER NEWS SERVICE KOTTAYAM (KERALA)

functions

physical

injuries inflicted

faces, heads, and mouths.

Five third-year students have been arrested for allegedly ragging first-year students at the Government Nursing College here, police said on Wednesday.

allegedly forced a first-year A case was registered after student to transfer Rs 300 via three first-year students lodged Google Pay and hand over Rs a complaint, alleging that the 500 in cash under threats. Police revealed that the money ragging had been ongoing for nearly three months at the was used for alcohol

abuse

(20), Rahul Raj (22), Jeev (18), RAJESH KUMAR NEW DELHI The complaint also states that

Delhi's Rouse Avenue court on Wednesday convicted former Congress MP Sajjan Kumar in a case related to the killings of two men in Saraswati Vihar on November 1, 1984, during the anti-Sikh riots. The arguments on the quantum of sentence in the case will take place on February

The Congress leader, who is currently serving a life sentence in another anti-Sikh riots case in Delhi Cantonment,


### coordinate closely on various Detailed story on page 5



Sajjan Kumar convicted for Sikh riots murders

change(s) in the columns relating to "Name (as per Class X)", "Date of Birth", "Father's Name", "Mother's Name", "Mobile Number" and "Email ID" in the OTR profile, the Commission said in the notice.

Continued on page 2





#### nursing institute, which consumption. under

On December 13, a first-year student endured extreme the Government Medical College. physical torture. That night, According to the complaint, the ragging began in November last year. The students reported that the the accused allegedly entered his room, tied his hands and legs, and restrained him. incidents involved extreme

Rijil Jith (20), and Vivek (21).

senior students regularly

extorted money from juniors

on Sundays to buy alcohol and

On November 16, the accused

frequently assaulted them.

They then poured lotion all over his body and inflicted brutality. They alleged that injuries using a divider. They also forced another first-year they were forced to stand naked and subjected to severe student in the room to record using dumbbells, including tying the incident on a mobile them to their private parts. phone.

endure the Further allegations include Unable to harassment any longer, three students finally lodged a using compasses and similar objects, complaint with the Kottayam followed by the application of lotion on the wounds. Additionally, they were forced Gandhinagar police.

College authorities stated that the affected students had not informed hostel officials, to have cream applied to their teachers, or parents about the The accused students have abuse.

been suspended, college authorities said. The action Upon receiving the complaint, the college promptly took action. Once the investigation confirmed the allegations, the was taken following an inquiry conducted under the anti-ragging law, they added. The case was handed over to the arrested students have been identified as Samuel Johnson police, they added.

was produced from Tihar jail before special judge Kaveri Baweja, who pronounced the conviction order. "I am of the opinion that Prosecution has been able to prove its case against the Accused beyond reasonable doubt. Thus, Accused Sajjan Kumar S/o Ch.Raghunath Singh is hereby convicted for offences punishable under Sections 147/148/149 IPC and for offences punishable under Sections 302/308/323/395/397/427/ 436/440 read with Section 149 IPC," Special Judge Kaveri Baweja said in her 139 pages order on Wednesday. The order said, "I am of the considered

opinion that the Prosecution has been able to bring home the guilt of the Accused. It has been established that the Accused was instigating the mob, which was armed with deadly weapons i.e. lathis and sarias etc. and that the mob being an 'unlawful assembly' within the meaning of Section 141 IPC used force and violence in prosecution of the common object of looting, committed the offence of rioting armed



Former Congress MP Saijan Kumar at the Rouse Avenue Court, in New Delhi

assembly' were armed with iron rods, lathis, bricks etc. also proves that alleged offences were committed after having made preparations for committing such offences".

The case attracts a maximum punishment of death penalty and lifeterm imprisonment as the minimum sentence. Kumar was produced before the court from Tihar jail to pronounce the verdict. He was convicted for the murder of Jaswant Singh and his son Tarundeep Singh on November 1, 1984. Special judge Kaveri Baweja aside from saying that a mob took part in rioting and killed the victims, held, "It has further been established that Kumar, being a member of such unlawful assembly, is guilty of having committed the murder of Jaswant Singh and with deadly weapons. Further, the fact Tarundeep Singh, the husband and son that the members of the 'unlawful of the complainant, during the

incident." The conviction judgment said, "The complainant who witnessed the brutal killing of her husband and son can certainly not be expected to forget the face of the person who was instigating the mob to carry out the said killings and looting and her deposition in court fortifies her stand that it is accused who was not only present during the alleged incident but also instigating and leading the mob which resulted in commission

of the aforesaid offences." The judge rejected Kumar's argument that the statement of the complainant couldn't be trusted as she named him belatedly and held at the time of the incident, she was not aware of the identity of the accused as she was admittedly new to the area and had never seen him earlier.

the recently concluded Assembly elections. Sources said, the arrests follow multiple complaints alleging widespread corruption in the department. The CBI launched a thorough surveillance operation to verify these claims before taking action. Upon investigation, authorities found prima facie evidence indicating corruption at various levels, leading to the arrests.

The arrests are a part of a larger corruption case, which is being investigated by the CBI. The DTC has been in the eye of storm over allegations of corruption against its officials. The BJP had alleged a scam in the purchase of 1,000 low floor buses by DTC during the AAP Government in Delhi. The Chief Secretary of Delhi had then recommended the CBI to investigate the matter. The recommendation was approved by Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena.

Continued on page 2

### **NEWS BRIEFS**

### Ram Janmabhoomi chief priest passes away

LUCKNOW: Acharya Satyendra Das, the chief priest of the Shri Ram Ĵanmabhoomi temple, breathed his last at SGPGI, Lucknow. He had been battling health complications after suffering a stroke earlier this month. Despite receiving intensive care, doctors were unable to save him.

His passing has cast a pall of sorrow over Ayodhya, where he had served as the chief priest since 1993. Over the decades, he became a symbol of devotion, witnessing the long and tumultuous journey from the Babri Masjid demolition to the consecration of Ram Lalla in the grand new temple. Continued on page 2

# Tragedy unfolds in Jammu, humanity

#### MOHIT KANDHARI 🗖 JAMMU

aptain Karamjit Singh Bakshi Cand Naik Mukesh Singh Manhas of 9 Punjab, martyred in an Improvised Explosive Device (IED) blast near the Line of Control (LOC) in the Akhnoor sector of Jammu on Tuesday, were both engaged and waiting to tie the knot in April 2025.

A pall of gloom descended on the families of the soldiers as the mortal remains of these two bravehearts were dispatched to their hometowns in Hazaribagh, Jharkhand and Samba for the last

rites on Wednesday. At both places, the telltale signs of ongoing renovation work were visible as their families were eagerly waiting to solemnize their marriage ceremonies.

A solemn wreath-laying ceremony was organised at the Air Force Station in Jammu where Lt-Gen recently resumed his duties in the

Navin Sachdeva, General Officer Commanding of the Nagrota-based White Knight Corps paid homage along with several other

senior police and civil officers. Captain Bakshi, who hailed from Hazaribagh in Jharkhand, had recently visited his home to oversee wedding preparations scheduled for April 5. A coursemate who had recently attended an advanced training course in the Army War College, Mhow while paying tributes to Captain Bakshi said he was very passionate about his duty. "He was a bold officer and always led from the front. We were all looking forward to attending his marriage ceremony and now we have to join a prayer meeting in his sweet memory".

A close relative of Captain Bakshi said his family runs a Restaurant in Hazaribagh. Lovingly known as Puneet, Captain Bakshi had



Army personnel pay tribute to soldiers who were killed in a suspected IED blast near LoC, in Jammu's Akhnoor

first week of February 2025. Captain Bakshi's father, Ajinder Singh Bakshi, and mother, Neelu Bakshi, were left crestfallen by the brave son of the soil.

loss of their elder son. The entire Hazaribagh community is mourning the martyrdom of their

Jharkhand Chief Minister Hemant Soren on Wednesday condoled the death of Captain Karamjit Singh Bakshi and the slain army jawan. State BJP chief Babulal Marandi also expressed grief over the death

of the army personnel. "Received the sad news of the martyrdom of Captain Karamjit Singh Bakshi from Jharkhand and another army jawan during a search operation in Akhnoor, Jammu. May Marang Buru grant peace to the souls of the martyred soldiers and give strength to the bereaved families to bear this difficult time of grief," Soren

posted on X. Meanwhile, a religious function was going on at the residence of Naik Mukesh Singh Manhas in Samba when the army authorities reached out to them to inform them about the IED blast and injuries suffered by their son in the Akhnoor sector.

Naik Mukesh Singh Manhas returned to his Army unit in the Akhnoor sector on January 28 after a two-week holiday for his ring ceremony. He too was constructing his home ahead of tying the nuptial knot.

loses

Naik Mukesh Singh comes from a family of patriots. His father Chagatar Singh served in the Jammu and Kashmir police while his younger brother is currently serving in the Indian army.

Paying glowing tributes to Naik Mukesh Singh, former Sarpanch Mukhtiyar Singh remembered him as an enthusiastic cricketer, motivator, and always ready to extend a helping hand to the needy. Naik Mukesh was set to get married around April 20-21, the grieving father said, as his relatives and neighbors made a beeline in front of the house to convey their condolences.



## **US Defence secy** makes first visit to **NATO** with allies

#### PTI BRUSSELS

made the first trip to NATO by a member of the new Trump tion. Trump traumatized his administration, as the allies European partners during wait to learn how much mili- his first term in office by tary and financial support threatening not to defend Washington intends to provide any member that doesn't to Ukraine's government.

Hegseth held talks with UK military spending. Defence Secretary John NATO is founded on the Healey, before a meeting of the principle that an attack on Ukraine Defence Contact any ally must be considered Group at NATO headquarters an attack on them all and met in Brussels. Hegseth's prede- with a collective response. cessor, former Defence Membership is considered Secretary Lloyd Austin, set to be the ultimate security up the forum for drumming guarantee, and it's one that up arms and ammunition for Ukraine is trying to secure. Ukraine in 2022.

around 50 countries have col-lectively provided Ukraine European allies have hiked more than USD 126 billion in their military budgets since weapons and military assis- Putin ordered his troops into tance. But the meeting this Ukraine, and 23 are estimatweek was convened by anoth- ed to have reached or exceeder country for the first time: ed last year the target of the United Kingdom. All previous gatherings of the forum were chaired by the United States.

No decision has been made on threshold, and Trump is who might chair the next almost certain to target them meeting, if one is called. again. Recently, Trump called Hegseth wasn't expected to for NATO members to

new weapons for Ukraine. His trip comes less than two no member has reached so weeks' before the third far - not even Poland, which anniversary of Russia's full- is the closest, spending more scale invasion of Ukraine on than 4 per cent and expect-February 24, 2022. Most US ed to approach 5% this year. allies fear that Russian Speaking to reporters in President Vladimir Putin Germany on Tuesday, won't stop at Ukraine's borders Hegseth wouldn't commit to if he wins, and that Europe's having the US increase its

their security. US President Donald Trump that the US should spend has promised to quickly end more than it did under the the war. He's complained that Biden administration and it's costing American taxpayers too much money. He has suggested that Ukraine should He said any final decision pay for US support with access would be up to Trump, but to its rare earth minerals, added that "we live in fiscalenergy and other resources. Some US allies worry that a hasty deal might be clinched on terms that aren't favorable to Ukraine. On top of that, Trump appears to believe that European countries should take responsibility for Ukraine's security going for-

### PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE Itis to inform to the public at large that Mr. Suraj Kumar Jha who is purchasing the Second floor without roof rights towards from Middle/Northern Portion of built-up Property bearing Plot No.10 and 11, area measuring 560 sq. yds., approx... comprised in Khasra No.298/Tmin, situated at Mata Mohalla in the abadi of Lal Dora Village Gadaipur, Village Gadaipur, Near Allahabad Bank, Tehsil hauz Khas (Mehrauli) New Delhi-11030 from Mr. Ram Kishan Kaushik & Mr. Tiak Rai Bhatia GPA ishan Kaushik & Mr. Tilak Raj Bhatia GF Holder of Mrs. Krishna Kalra & Mr. Yatin Kalra and same to be financed & mortgaged by Aditya Birla Housing Finance Ltd. That Mrs. Krishna Kalra and Mr. Yatin Kalra by Aditya Birla Housing Finance Ltd. That, Mrs. Krishna Kalra and Mr. Yatin Kalra became owners vide Sale Deed dated 07-11-2022 (Document No.9661) executed by Mr. Amrik Singh, Mr. Vishwa Bandhu Sachdeva, Mr. Harji Ahmed. Further, Mrs. Krishna Kalra and Mr. Yatin Kalra executed Regd. GPA Dated 05-09-2024 in favour of Mr. Ram Kishan Kaushik and Mr. Tilak Raj Bhatia. So, to comply the requirements of BANK/NBFC, we give this public notice that if any Person having any type of claim/right/tille/interesty inform in writing, at the address mentioned below, about his objections, within 15 days from today, failing which it shall be presumed that the said property is free from all type of Encumbrances, lenet. Lucem Legal LLP B-393B. Second Floor. Ono. SBI Bank nces, lien etc. Lucem Legal LLI B-93B, Second Floor, Opp. SBI Ban ctor 2.Noida.UP-201301Co

ward. Washington's 31 NATO

allies also want to hear what US Defence Secretary Pete Hegseth on Wednesday has in store for the world's biggest security organizameet NATO guidelines for

Ukraine's security needs and Ukraine in 2022. Over nearly three years, defense spending will be dis-cround 50 countries have col- cussed on Thursday.

spending 2 per cent of gross domestic product. However, a third of members still haven't reached that

again. Recently, Trump called make any announcement on increase defense spending to 5 per cent of GDP, a level that

biggest land war in decades defense spending to 5 per poses an existential threat to cent of GDP. Hegseth said that he believes "should not go lower than 3 per cent."

> ly constrained times" and need to be responsible with taxpayer money.

PUBLIC NOTICE Public is hereby informed that my client Abdu Hamid Slo Abdul Wahid R/o House No. 878/33A. Ward No. 6. Pil Khana. Mehrauli South Delhi, Delhi-110030 has renounced disowned and severed all their relations with his on Abdul Sahil on account of his misdeeds

or Abdul Sami on account of his misceeds om all the self-acquired movable as well as nmovable properties belonging to my client. Abdul Sahil will not stake for any claim of any nature whatsoever in the said properties of my client any person dealing with Abdul Sahil will do so at his own risks and perils. Ramesh Kumar Advocate, Off:- M-1,

#### Malviya Nagar, N.D.-17 PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE FOR SALE ince Mr. Anoop Singh S/o Azad Singh eeking a home loan from INDIAN OVERSEAS AINK for the property Le. House no 60, area teasuring 239.2 sq. yds., Block-F, situated at 'lilage Fazilgur Jharsa & Tikri, Vipul World, ector-48, Tehsil Badshapur and District jurugram, Haryana; hereinafter referred to as said property";. FOR IMMIDIATE SALE 300 SQ YDS, 12 MTR ROADE 2/12 DLF PHASE-1 GURGAON. Courugram, Haryana; hereiniafter referred to as "said property". That, the said property was transferred to as "said property". That, the said property was channer (80%) and Yogesh Kumar(20%) was owner through Sale Deed 11905 dated 01.02.2022. Thereafter, they have transferred between themselves (13/d Share Each i.e. Jagdish Chander(33.33%), Mr. Yogesh Kumar (33.34%), and Mr. Parvesh (33.33%) through transfer deed 1579 dates (13/d Share Each i.e. Jagdish Chander(33.33%), has transferred his right to Mr. Jagdish Chander (16.865%). Therefore, Mr. Jagdish Chander dated 15515 dated 11.02.2025. Now, That, Mr. Jagdish Chander (30%) and Mr. Yogesh Kumar (16%) became owner transfer deed dated 15515 dated 11.02.2025. Now, That, Mr. Anoop Singh is purchasing the said property. Herefore, Mr. Jagdish Chander (30%) and Mr. Anoop Singh is purchasing the said property. Anoop Singh is purchasing the said property. Anoop Singh sing thating the sither are oblicitions/datamistig of dispute's withinar volections/datamistig of usidpute's withinar hards of the salov intended sale transaction hards profession and the of this publication may come to our Delhi office, failing which, Mr. Anoop Singh will proceed to complete the sale transaction with the above owners as if there are on third party caims/objections/disputes in respect of the said property and thereafter no third party caims/objections/disputes in respect of the said property will be entertained and moved forth accordingly. **MS PASS & ASSOCIATES LLP** PRASHANT WADHWA SHANTI PROPERTIES ①-9891555575

oved forth accordingly. M/S PASS & ASSOCIATES LLP B-132, L.G.F, Malviya Nagar New Delhi-110017, Mob: 9991116006

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to general public at large that my clientAxis Bank Limited, having one of its Branch at Ground Floor, Tower-I, Axis House, Sector-128, Noida, Uttar Pradesh intends to grant Loan facility to Sh. Pradeep Sharma against security of DDA's Janta Flat bearing No 60, in Block B, in Pocket-11, on Third Floor, in the law totage of Havings Entate larged injusted

No.60, in Block B, in Pocket-11, on Third Floor, in the layout plan of Housing Estate Jasola, situated at Jasola, New Delhi. Inereinafter referred to as "Said Property". Smt. Usha Rani Wio Sh. Darshan Singh acquired the Said Property from Smt. Sarita Chauhan Wio Sh. Neeraj Chauhan vide Sale Deed bearing Doc. No. 4429 on 26.03.2022, who died intestate on 17.08.2022 leaving behind her only son Sh. Gurvinder Singh Sodhi as per SMC No. 90660001163951 dated 26.09.2022 issued by office of the District Magistrate Kalkaji, who intends to sell the Said Property to Proposed Borrower. Any person(s)

Property to Proposed Borrower. Any person(s) has/have any objection(s) or claim(s) with respect to right, title or interest in the said

property/portion in any manner whatsoever, mus

property/portion in any manner whatscever, must immediately contact the undersigned in writing along with all supporting documents in respect of their claim(s) objection(s). If no such claim is received with in a period of 7 days from the date of publication of this notice, then it will be presumed that no one has any paramount right, title, or interest in the Said Property and even if someone has any claim/objection, he/she/they have given up the same.

Himanshu Ahuja (Advocate) Contact No.: 9810310373, 011-41830049 E-mail Address: alolegals@gmail.com

#### PUBLIC NOTICE LOSS OF ID CARD

is to bring to the notice of the eneral public that one ID card of Baveena sued by ICICI Bank Ltd. Having ID Card No. 2511336 has been found missing and/or lost on 11-02-2025 Anyone who find the said ID Card, is requested to return the said ID Card to The Manager Debt Services & Management Group, ICICI Bank Limited, Plot No. 7, Community Centre, S.D. Tower, Sector-8, Rohini, N. Delhi-85.

Therefore, all the customers of ICICI Bank payment to any unauthorized person holding the said ID Card No. 2511336.

Please take further notice that anybody aking payment to any person holding the said ID card shall do so at his/her own costs, risk and peril and ICICI Bank shall not be bound and/or responsible for any

payment. For ICICI Bank Limited Date: 11.02.2025 Place : Delhi ----Sd----



PUBLIC NOTICE

**PARADIP PORT AUTHORITY** E-TENDER CALL NOTICE

No. EM/MCHP/Tender-01/25/53 Date: 10/02/2025 Name of the Work "Design, Fabrication, Supply, Erection and Commissioning of one no. of Stacker 4000 TPH Capacity". Estimated cost: Rs.55,10,00,000/-. Last date & time of submission of bid: 12.03.2025 up-to 17:15 Hre Befer our webeits for details Hrs. Refer our website for detail https://eprocure.gov.in/eprocurec/app PPA/PR/62/2024-2025 Executive Engineer (M 11/02/2025 MCHP, PPA

#### **PUBLIC NOTICE** Public Notice regarding cancellation of property

This Public Notice is from M/S JKG Construction Pvt Ltd for Mr Tarun Kumar bearing unit no. C1-1405 at JKG Palm Court, Plot No. GH-01D, Sector 16C, Greater Noida West, Uttar Pradesh-201009.

We have offered possession of your allotted unit in February 2021, basis which we have shared final demand notice of unit C1-1405 on 09.04.2022, 02.06.2022, 16.08.2022, 07.10.2022, '7.08.2024, 24.082024 & 26.08.2024 you failed to make the payment as per final demand notice. Hence we have cancelled your allotted unit via cancellation intimation letter dated 02.12.2024. Neither got any response from your end nor we have received any payment so far which tantamount to your tacit acceptance that you are no more interested in taking possession of the said flat.

Hence your allotted flat C1-1405 is being cancelled on 16.01.2025, as such the allotment has become null & void and you have no claim on the dwelling unit and your deposited amount shall be refunded as per BBAClaus.

For M/S JKG Construction Pvt Ltd

#### PRAKASH WOOLLEN & SYNTHETIC MILLS LIMITED

Regd. office. 18th KM Stone, Delhi Moradabad Road, NH24, Village-Amhera, Distt: J.P.NAGAR-244102, U.P. CIN-L17291UP1979PLC004804

PH: 91-9760091983, Email: info@prakashwoollen.com, Website: www.prakashwoollen.com

					-		(Rs in lakt
			Quarter ended		Nine mon	ths ended	Year End
	Particulars	3 months ended (31.12.2024)	Preceeding 3 months ended (30.09.2024)	Corresponding 3 months ended in the previous year	Year to date figures for current period ended	Year to date figures Year to for the previous	Previous year ended (31.03.202
				(31.12.2023)	(31.12.2024)	year ended (31.12.2023)	
1.	Total income from operations (net)	5707.87	2827.13	4889.55	9922.14	9029.26	10214.
2.	Net Profit / (Loss)for the period before						
	Tax and Exceptional items	(338.34)	(191.42)	173.71	(582.85)	3.47	18.
3.	Net Profit / (Loss) for the period before						
	tax and after Exceptional items	(338.34)	(191.42)	173.71	(582.85)	3.47	18.
4.	Net Profit / (Loss) for the period after						
	tax and Exceptional items	(496.07)	(99.13)	172.70	(626.79)	13.88	95.
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(496.07)	(99.13)	172.70	(626.79)	13.88	79.
6.	Equity Share Capital						
	(Face value Rs 10 each)	1025.98	1025.98	1025.98	1025.98	1025.98	1025.
7.	Other equity	-	-	-	-	-	
8.	Earnings per share for discontinued & continuing operations (of Rs. 10/-each):						
	(a) Basic	(4.84)	(0.97)	1.68	(6.11)	0.14	0.
	(b) Diluted	(4.84)	(0.97)	1.68	(6.11)	0.14	0.

The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 12, 2025

### PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that Dharamvi Singh Bhati and Abhishek Bhati claims to be owner and in cossession of Prop No 208, Block-B, Sec-46, Noida, U.P. hereinafter called the said property) b virtue of Transfer Deed Cum Gift Deed dated 03.02.2025 executed by Rajesh Bhati through GPA holder (His Brother) Dharamvir Singh Bhati reg.vide Doc. No. 1682 R/w Transfer Deed dated 14.09.2007 reg. vide Doc. No. 2893, and Said Dharamvir Singh Bhati and Abhishek Bhati has agreed to create a mortgage in favour of our clients Standard Chartered Bank ITO Branch, any person/s having claim against the said Property, or any part thereof, by way of sale, exchange, mortgage (equitable, registered or otherwise), gift, trust nheritance, lien or otherwise howsoever are hereby intimated to notify the same in writing to us with supporting documentary evidence at the address mentioned below vithin 10 days from the date hereof, failing which the claim or claims, if any, of such person or persons will be considered to have been waived and/or abandoned and our client shall proceed with the disbursement of loan and subsequent creation of mortgage in respect thereof.

Vishal Diwan (Advocate For Diwan and Company LLP House No.2 (LGF), NRI Complex, N.D-19 Mobile No. 9818399999



The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 11th February, 2025. The Financial results for the Third quarter ended 31st December, 2024 have been limited reviewed by the Statutory Auditors of the Company.

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone Quarter ended filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited standalone Results are available on the Stock Exchange websites, www.bseindia.com & www.nseindia.com and on the company website https://imcapitals.com/fedders-electric-engineering/.

For and con behalf of the Board of Directors of Fedders Electric and Engineering Limiter -sd
 VISHAL SINGHAL (Managing Director DIN: 03518798

Place : Sikandrabad (U.P.) Date : 12th Feb, 2025

VISHAL SINGHAL (Managing Director) DIN: 03518795

			Standalone	<u></u>	(	Consolidate	d
S.	Particulars		Nine Month ended 31.12.2024				ended 31.12.2023
-	Total income from an anti-		Unaudited				Unaudited
1	Total income from operations (net)	4.10	4.10	1.07	18.52	26.47	23.93
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	3.41	0.27	(0.28)	16.83	20.84	19.31
3	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	3.41	0.27	(0.28)	16.83	20.84	19.31
4	Net Profit for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	3.06	(0.07)	(0.28)	10.04	9.03	19.31
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	880.20	1,371.25	287.01	3.316.41	5.145.05	1,105,91
6	Equity share capital (Face Value of Rs.10/- each)	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00
7	Earnings Per Share (before extraordinary items) (Face Value of Rs. 10/- each)						
	(a) Basic (Rs.)	1.28	(0.03)	(0.12)	4.18	3.76	8.05
	(b) Diluted (Rs.)	1.28	(0.03)	(0.12)	4.18	3.76	8.05

NOTES:

Place : Delhi


Date : February 11, 2025

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange Website (www.cse-india.com) and on Company's Website (https://saneh.in/)

The above results have been prepared in accordance with principle and procedures of Indian Accounting Standards (Ind AS) as notifier under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as specified under section 133 of the Companies Act, 2013.

The above Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on February 11, 2025.





#### **ReNew Fazilka Solar Power Private Limited**

CIN No. : U40108HR2015PTC055470 Regd. Office : ReNew Hub, Commercial Block-1, Zone-6, Golf Course Road, DLF City Phase-V, Gurugram 122009, Haryana, India Corporate Office : ReNew Hub, Commercial Block-1, Zone-6, Golf Course Road, DLF City Phase-V, Gurugram 122009, Haryana, India Phone No. : 124 489 6670/80 Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the guarter and nine months ended December 31, 2024

Particulars	1					
	Quarter ended 31 December 2024	30 September 2024	Quarter ended 31 December 2023	9 months ended 31 December 2024	9 months ended 31 December 2023	Year ended 31 March 203
Tatal lasana from Opporting	(Unaudited) 40	(Unaudited) 35	(Unaudited) 4 ()	(Unaudited)	(Unaudited)	Audited 238
Total Income from Operations	40	35	40	126	122	230
Net Profit for the year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	46	41	32	144	129	182
	40	41	32	144	129	102
Net Profit for the year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	46	41	22	144	120	100
, ,	46	41	32	144	129	182
Net Profit for the year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	35	30	23	107	96	134
Total Comprehensive Income for the year	35	30	23	107	30	134
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income						
(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	35	30	23	107	96	134
Paid up Equity Share Capital	21	21	23	21	21	21
Reserves (excluding Revaluation Reserve)	6,601	6,567	6,431	6,601	6,431	6,494
Securities premium	,	6,063	6,063	6,063	· · ·	,
Net worth	6,063			-	6,063	6,063
	6,642	6,608	6,497	6,642	6,497	6,534
Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	2,898	3,114	3,259	2,898	3,259	3,259
Outstanding Redeemable Preference Shares		NA 0.47	NA 0.50	NA 0.42	NA 0.50	NA
Debt Equity Ratio	0.43	0.47	0.50	0.43	0.50	0.49
Earnings Per Share* (face value of						
per sahre INR 10) (for continuing and						
discontinued operations)	0.00	7.10	F 07	00.00	00.10	20.00
1. Basic:	8.69	7.42	5.67	26.33	23.46	32.89
2. Diluted:	8.69	7.42	5.67	26.33	23.46	32.89
Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Debenture Redemption Reserve	116	95	33	116	33	53
Debt Service Coverage Ratio*	2.04	2.12	1.57	2.15	3.88	3.05
Interest Service Coverage Ratio*	1.71	1.55	1.49	1.70	2.02	1.92
Current Ratio	5.73	4.59	4.51	5.73	4.51	4.11
Long Term Debt to Working Capital	0.69	0.70	0.73	0.69	0.73	0.73
Current Liability Ratio	0.22	0.27	0.27	0.22	0.27	0.30
Total Debts to Total Assets Ratio	0.25	0.24	0.25	0.25	0.25	0.24
Debtors Turnover Ratio*	0.32	0.27	1.06	1.00	1.44	1.90
		÷.=,				
Inventory Turnover Ratio	NA NA	NA	NA		NA	NA
Inventory Turnover Ratio	NA 60%	NA 61%	NA 69%	NA		NA 47%
Operating margin (%) Net profit margin (%)	60% 89%	NA 61% 85%	NA 69% 57%		NA 70% 78%	NA 47% 56%
Operating margin (%)	60% 89%	61%	69%	NA 62%	70%	47%
<ul> <li>Operating margin (%)</li> <li>Net profit margin (%)</li> <li>*not annualized</li> <li>Notes : <ol> <li>Ratios have been computed as</li> <li>Net worth: Issued subscribed and paid</li> <li>Reserves and Surplus includes Genera and Profit and loss account balance.</li> <li>Debt Equity Ratio = Total Debt (Long-te</li> <li>Earning per share = Profit after tax / W</li> <li>Debt Service Coverage Ratio = (Net Pri (Interest payment + Long Term Debt Pri Interest Service Coverage Ratio = Profit</li> <li>Current Ratio = Current Assets / Currer</li> <li>Long Term Debt to Working Capital = N borrowings/ (Current Assets - Current Liability Total Debts to Total Assets = Total long i</li> <li>Debtors Turnover = Revenue from ope</li> </ol> </li> <li>The above is an extract of the detailed for regulation 52 of the Listing Regulations. T of BSE Limited (URL: https://www.bseindia</li> <li>For the other line items referred in Regula disclosures have been made to the BSE L</li> <li>The Statement has been prepared in acc accordance with the Indian Accounting St under Section 133 of the Companies Act, Standards) Rules, 2015 and relevant rule policies.</li> <li>The financial results of the Company have February, 2025.</li> <li>The Company is carrying out business an renewable energy sources and allied serv or geographical) in accordance with the rule</li> </ul>	follows: up capital + l reserve, Du erm borrowinn eighted aver ofit after tax incipal repay t before inter t Liabilities Non- Current Liabilities exc ies/ Total Lia term outstand rration/ Avera rmat of quar The full form Lomi. andard 34 " 2013 ('the A es issued the e been appro- ctivities relation equirements	61% 85% instrument er ebenture rede gs + Short-te age number d ss + non-casl ments) est, tax, dep borrowing in cluding currer bilities ding debts/ To ge trade rec terly financial at of the SEBI (L can be access n recognition Interim Finar ct') read with areunder and wed by the E ing to generat state of Telan of Ind AS - 1	69% 57% httirely equity emption reserved for equity shat h operating of reciation / To cluding current maturities tal Assets eivables results filed terly financia ODR) Regul sed on the U and measur rocial Repport Rule 3 of th other recog Board of Dire ation of powe (08 "Operatin	NA 62% 85% in nature + erve, Securiti gs) / Sharehures expenses + i tal Interest I ent maturities so f Non-Cu with the Sto al results is a ations, 2015 JRL: https://w ement princi ing" ("IND A ne Companie nized accou ctors in their er through m is only one og Segments	70% 78% reserves and es premium older's Equity interest + tax Expense s of Non-curr irrent borrow exc Exchange available on t , the pertinen www.bseindia. ples laid dow S 34") as pre- is (Indian Acc inting practic r meeting hel- on-convention segment (bu	47% 56% I surplus. account ( expense) expense) expense) for the website to com. or in escribed counting es and d on 12th nal and isiness and
<ul> <li>Operating margin (%)</li> <li>Net profit margin (%)</li> <li>*not annualized</li> <li>Notes : <ol> <li>Ratios have been computed as</li> <li>Net worth: Issued subscribed and paid</li> <li>Reserves and Surplus includes Genera and Profit and loss account balance.</li> <li>Debt Equity Ratio = Total Debt (Long-te</li> <li>Earning per share = Profit after tax / W</li> <li>Debt Service Coverage Ratio = (Net Pri (Interest payment + Long Term Debt Pri Interest Service Coverage Ratio = Profit</li> <li>Current Ratio = Current Assets / Currer</li> <li>Long Term Debt to Working Capital = N borrowings/ (Current Assets - Current Liability Total Debts to Total Assets = Total long i</li> <li>Debtors Turnover = Revenue from ope</li> </ol> </li> <li>The above is an extract of the detailed fo regulation 52 of the Listing Regulations. T of BSE Limited (URL: https://www.bseindia</li> <li>For the other line items referred in Regula disclosures have been made to the BSE L</li> <li>The Statement has been prepared in acco accordance with the Indian Accounting St under Section 133 of the Companies Act, Standards) Rules, 2015 and relevant rule policies.</li> <li>The financial results of the Company have February, 2025.</li> <li>The financial results of the Company have renewable energy sources and allied services and allied services and services and allied servi</li></ul>	follows: up capital + il reserve, Do erm borrowin, leighted aver ofit after taxe incipal repay t before inter t Liabilities Von- Current Liabilities exc ies/ Total Lia term outstann ration / Avera rmat of quar The full forma Loom). ation 52(4) o Limited and ci cordance with andard 34 " 2013 ('the A es issued the e been appro- ctivities relativices in the equirements ARE A+ (CE re-grouped/	61% 85% instrument er ebenture rede gs + Short-te age number ss + non-cash ments) est, tax, dep borrowing in cluding currer ibilities ting debts/ To ge trade recc terly financial at of the quar f the SEBI (L can be access n recognition Interim Finar ct <sup>2</sup> ) read with are do Telan of Ind AS - 1 (Ntable by C re-classified of	69% 57% httirely equity emption reserved for equity shat h operating of reciation / To cluding current ntmaturitie tal Assets eivables results filed terly financia ODR) Regul sed on the U and measur recial Repport Rule 3 of the other recog Board of Direct ation of power (08 "Operatin ARE Limited wherever neing is not ma	NA 62% 85% in nature + erve, Securiti gs) / Sharehu- res expenses + i batal Interest I ent maturities so f Non-Cu with the Sto al results is a ations, 2015 IRL: https://w ent princi mg" ("IND A he Companie mized accou ctors in their is only one og Segments wide letter of cessary, to of terial to the Fazilka Sola	70% 78% reserves and es premium older's Equity interest + tax Expense s of Non-curr urrent borrow ock Exchange available on t , the pertinen ww.bseindia. ples laid dow S 34") as pro- ses (Indian Acco s 34") as pro- tes (Indian Acco s 34") as pro- tes (Indian Acco s 100 practic r meeting hel- on-convention segment (but jated 16 Aug ponform to cu	47% 56% I surplus. account rent ings) under he website to com. m in escribed counting es and d on 12th nal and ust 2024. irrent lts. ehalf of th rate Limite

# world 09

PUBIC NOTCE: Notice is hereby given that my client Veena Sharma is the owner as well as one of the shareholder in Giraffe Advertising and Marketing Private Limited is in process to avail the credit facility against her Piot Bearing No. 8A, area measuring 380 sg. varts i.e. 317.718 sy. mits, gut of Khasra No. 30H, in the revenue estate of vilage Prahad Garhi. Tehsi and District Ghazbadd. UP Avaimp loan from AU Small Finance Bank), having acquired the same vide Sale Deed dated 20/8/20/24 Not on 11/231 executed by Gurpreet Simpi Bala All personis having any claim against or in respect of the said Property, or any part thereof, by way of sale, exchange, endre, sublease, tenancy, license, lien, charge, Bedge, essemant or otherwise howsever, are hereby requested to notify the same in writing to us with supporting documentary evidence at the address mentioned below within 07 days from the date hereof, raining which the claim or claims, fan, yo i such person or persons will be considered to have been waived and/or abandoned. Kamal Kan Gurpt Advecate Unit No. Fr-2 First floor, Mahaluxmi Metre Tower Sec 4, Vashali, Gzb., U.P., Mob, 9810063351

d)

Place: New Delhi

Date: February 12, 2025

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property)

#### Whereas

131

The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", Head offic at, C-29,Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058, having its registe office at 1916, Chuna Mandi, Pahar Ganj, New Delhi-110055, under The Securitisation an Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule [3] of The Security Inte (Enforcement) Rules, 2002, the Bank had issued a demand notice on dated 25-09-2024 calling upon the borrower Sh. Atul Tyagi Sio. Sh. Naresh Tyagi, 739, LIG Flats, Pkt-II, Hastsal, Uttam Nagar New Delhi-110059, siso at Sh. Atul Tyagi Sio. Sh.Naresh Tyagi, B-18A, Rama Park, Uttam Nagar, New Delhi-110059 and calling upon the Mortgagor & Surety Smt. Preeti Tyagi Wio. Sh. Naresh Tyagi, Rio. 739, LIG Flats, Pkt-II, Hastsal, Uttam Nagar,New Delhi-110059 also at Smt. Preeti Tyagi Wio. Sh. Naresh Tyagi B-18A, Rama Park, Uttam Napar, New Delhi-110059 calling upon the Sh. Mayur Tyagi S/o. Sh. Naresh Tyagi R/o. 739, LIG Flats, Pkt-II, Hastsal, Uttam Nagar New Delhi-110059, to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 45.75.718/- (Rupees For Five Lakhs Seventy Five Thousand Seven Hundred and Eighteen Only), together with further interest penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date

the notice till the date of payment, with in 60 days from the date of receipt of the notice. The above mentioned borrower, mortgagor & sureties having failed to repay the am hereby given to the borrower, mortgagor, sureties, and the public in general that the Bank has take Symbolic Possession of the property described here in below in exercise of powers conferred under ub-section (4) of section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets ( Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with rule [8] of The Security Interest (Enforcement Rules, 2002, on this 06th day of February' 2025. The borrower, mortgagor & surelies in particular and the public in general is hereby cautioned not to

deal with the montpaged property and any dealings with the property will be subject to the charge or "The Kangra Co-operative Bank Ltd.",for an amount of Rs. 45,75,718<sup>4</sup> together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time to time. from the date of notice till the date of realization together with all the costs incurred by the Bank in zing the said amount

The borrower, mortgagor & sureties attention is also been invited towards provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of time available, to redeem the below mentioned mortgage erty/SecuredAsset.

The property under consideration is an Entire Built Up property area measuring 125 sq. yds.	All that part and parcel of the BUILT UP ENTIRE PROPERTY BEARING NO.B-18-A, AREA MEASURING 125 SQ. YDS., OUT OF KHASRA NO. 571, SITUATED IN THE AREA OF VILLAGE NAWADA AND THE COLONY KNOWN AS RAMA PARK, IN BLOCK-B, UTTAM NAGAR, NEW DELHI-110039, WITH THE FREE HOLD RIGHTS OF THE LANO UNDER THE SAID PROPERTY. Failing Under the Registration of Sub-Registraril. Janakpuri. New Delhi.
--	--

	ROAD 15'WIDE, NORTH : PLOT NO. B-19, SOUTH : PORTION
OF PLOT NO. B-18.	(MEENAKSHI VATS)
	AUTHORISED OFFICER
	THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD.
DELHI.	HEAD OFFICE AT, C-29, COMMUNITY CENTRE.
DATED : 06-02-2025	PANKHA ROAD, JANAKPURI, NEW DELHI-58.

	on February 12, 2025. The standalone results have been prenered in separatenes with the Companies (Indian Association Standards) Pulse, 2015 (Ind						
	2. The standalone results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the						
	extent applicable.						
	The company is engaged in the blankets business, therefore, there is only one reportable segment in accordance with the						
	Accounting Standards on Segment Reporting (Ind						
4.	The blankets business is seasonal in nature and acc	ordingly financial re	sults for the quarter	are not represent	ative of the whole year.		
5.	Previous year/ quarter figures have been regroupe	d wherever required		_			
			Eas Brakes		y Order of The Board nthetic Mills Limited		
			FULFIAKAS	n woonen a sy	Vijay Kumar Gupta		
Pla	ce : Village Amhera (Amroha)			Whole	Time Director & CFO		
	e : 12th February 2025				DIN: 00335325		
	-						
	ORIENTAL NAGPUR BE	TUL HIG	HWAYLIN	MITED			
ľ	Regd. Off.: Unit No 307A, 3rd floo						
	Hospitality Dist. Delhi Ae						
	E-mail: onbhlinvestors.relations@orientalinf	ratrust.com; CIN	I: U45400DL2010F	PLC203649			
	FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AN	D NINE MONTHS	ENDED DECEMBE	R 31, 2024			
			(	₹ in Millions)			
SI. No.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2024 (Un-audited)	Quarter Ended 31.12.2023 (Un-audited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)			
1	Total income from operations (net)	1,019.67	952.42	3,918.30			
2	Net Profit/(Loss) for the period ( before Tax and Exceptional items)	469.78	497.03	2,020.75			
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	469.78	497.03	2,020.75			
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	436.37	495.83	1,973.07			
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax)						
	and Other Comprehensive Income (after tax)]	436.79	495.87	1,973.09			
6	Paid up Equity Share Capital	181.35	181.35	181.35			
7	Reserves (excluding (excluding Debenture Redemption Reserve)	8,541.15	7,692.75	8,269.23			
8	Securities Premium	3,443.66	3,443.66	3,443.66			
9	Net Worth	10,099.19	9,479.21	9,942.89			
10	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	17,830.28	20,098.18	18,969.53			
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-				
12	Debt Equity Ratio	1.77:1	2.12:1	2.13:1			
13	Earnings Per Share (of Rs 10/- each)						
	1. Basic:	24.09	27.34	108.80			
	2. Diluted:	24.09	27.34	108.80			
14	Capital Redemption Reserve	-		-			
15	Debenture Redemption Reserve	1,376.70	1,605.12	1,491.82			
16	Debt Service Coverage Ratio	1.03:1	1.10:1	1.14:1			
17	Interest Service Coverage Ratio	2.06:1	2.01:1	2.00:1			
Not							
a)	The above is an extract of the detailed forma Stock Exchange under Regulations 52 of Requirements) Regulations, 2015. The full forr on the websites of the National Stock E www.nagpurbetulhighway.ir).	the SEBI (Listin nat of the un-audit	g Obligations ar ed financial result	id Disclosure s are available			
b)	www.nagpurbetuinignway.ir). For the other line items referred to in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to the Stock						

Exchange and are available on the websites of the National Stock Exchange (NSE) and the

c) These un-audited financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on February 12, 2025.

The financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting

For and on behalf of Board of Directors o Oriental Nagpur Betul Highway Limited

Sd/ Rajesh Yadav

Directo

DIN: 08397240

listed entity (http://www.nagpurbetulhighway.in).

standard prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.





# शताब्दी नगर सब-स्टेशन पर बिजली आपूर्ति शुरू

🗢 नमो भारत मेरठ सेक्शन को संचालित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

#### पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के शताब्दी नगर रिसीविंग सब-स्टेशन (आरएसएस) पर बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई है, जोकि मेरठ सेक्शन को संचालित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

यह नमो भारत ट्रेनों और स्टेशनों के साथ-साथ मेरठ मेट्रो के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। एनसीआरटीसी दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर पांच आरएसएस- सराय काले खां, गाजियाबाद, मुरादनगर तथा मेरठ में शताब्दी नगर व मोदीपुरम में स्थापित कर रहा है। शताब्दी नगर शहर में पहला शुरू हो चुका



आरएसएस है, जबकि दूसरा मोदीपुरम में निर्माणाधीन है। आरएसएस से ट्रेन संचालन के लिए ओवरहेड उपकरण (ओएचई) को 25 किलोवॉट बिजली आपूर्ति होती है, जबकि 33 किलोवॉट बिजली (33 केवी रिंग) मेन सिस्टम और सहायक सब-स्टेशन (एएसएस) के माध्यम से स्टेशनों को वितरित की जाती है। आरएसएस वितरण कंपनियों से बिजली प्राप्त करता है और इसे 33 केवी रिंग मेन सिस्टम के माध्यम से प्रत्येक स्टेशन पर एएसएस तक पहुंचाता है, जिससे स्टेशन उपकरणों का कुशल

संचालन सुनिश्चित होता है। बिजली आपूर्ति प्रणाली अधिक विश्वसनीयता और अतिरेक के लिए डिजाइन की गई है।

किसी एक आरएसएस में किसी भी व्यवधान के मामले में, दूसरा आरएसएस निर्बाध रूप से लोड को संभाल सकता है. जिससे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होती है। इसके साथ ही सभी आरएसएस पर सोलर पैनल भी स्थापित किए जाते हैं। शताब्दी नगर आरएसएस मेरठ के कई प्रमुख स्टेशनों को बिजली की आपूर्ति करेगा, जिसमें शताब्दी नगर, परतापुर, रिठानी, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैंसाली, बेगमपुल और एमईएस कॉलोनी स्टेशन हैं। वर्तमान में, गाजियाबाद और मुरादनगर आरएसएस न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ के बीच 11 स्टेशनों सहित 55 किलोमीटर के परिचालित खंड को बिजली आपूर्ति कर रहे हैं। शताब्दी नगर आरएसएस को उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) ग्रिड सब-स्टेशन से 220 केवी एक्स्ट्रा हाई टेंशन (ईएचटी)

केवल के माध्यम से विजली मिलती है, जो टेन संचालन के लिए 25 केवी बिजली और नमो भारत स्टेशनों के सहायक/अन्य विद्युत भार के लिए 33 केवी बिजली वितरित करती है।

एनसीआरटीसी सभी विद्युत सबस्टेशनों, स्टेशनों और डिपो में वर्षा जल संचयन प्रणाली, सीवेज उपचार संयंत्र, ग्रीन स्पेस, एलईडी लाइटिंग, प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था और ऊर्जा-कुशल एयर कंडीशनिंग को शामिल करके सतत क्षमता को भी प्राथमिकता दे रहा है। ये नमो भारत कॉरिडोर के लिए अत्याधुनिक, विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए एनसीआरटीसी की प्रतिबद्धता है, जिससे यात्रियों के लिए एक सुगम यात्रा अनुभव सुनिश्चित होता है। 82 किमी लंबे सम्पूर्ण नमो भारत कॉरिडोर के संचालित होने पर इससे 11 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का भी लक्ष्य है, जिससे सालाना 11,500 टन उत्सर्जन कम होने की उम्मीद है, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक बडा कदम साबित होगा।

### ओएनजीसी के रिटायर्ड जीएम से ठगे १.७९ करोड़ **नोएडा।** साइबर ठगों ने विदेशी

एक्सचेंज में पैसे लगाकर कई गुना मुनाफा कमाने का झांसा देकर ओएनजीसी के रिटायर्ड जीएम के साथ 1.79 करोड़ की ठगी की। पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने की पुलिस से की है। जिन खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर हुई हैए पुलिस उन खातों की जांच कर रही है। पीडित रमेश कुमार ने ठगी का आरोप अनन्या जोशी नाम की युवती पर लगाया है। रमेश कुमार ने बताया कि पिछले साल उनके पास एक युवती ने सोशल मीडिया पर उन्हें दोस्ती का प्रस्ताव भेजा। युवती ने वॉट्सऐप पर विदेशी एक्सचेंज में पैसे लगाकर मोटा मुनाफा कमाने का झांसा दिया। मुनाफे के चक्कर में पीड़ित ने कुल एक करोड़ 80 लाख का निवेश कर दिया। मुनाफा पैसे न भेजने पर पीड़ित के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया।

प्रदर्शन शुरू कर दिया। जिसके बाद

मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो

बडे फर्जीबाडे का पता चला इस

मामले में पीड़ित की ओर से थाना

सेक्टर-63 में मुकदमा दर्ज कराया

गया है। नोएडा के सेक्टर-63 में स्थित

फ्लाई विजन एंटरप्राइजेज कंपनी ने

सोशल साइट पर विज्ञापन देकर अपने

कंपनी ने जॉर्डन में माली और

### संक्षिप्त समाचार



नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण करते सांसद महेश शर्मा ग्रेटर नोएडा में पूर्व प्रधान के बेटे को गोली मारी

नोएडा । ग्रेटर नोएडा में दबंगों द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। जारचा क्षेत्र के नगला चमरू गांव में मंगलवार देर रात पूर्व प्रधान के बेटे को घर से बाहर बुलाकर अज्ञात बदमाशों ने कई राउंड गोली चलाई। एक गोली पैर में लगने से युवक घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि थाना जारचा क्षेत्रांतर्गत ग्राम नंगला चमरू में अंकित पुत्र ऋषिपाल के घर पर धाबा बोलकर कुछ अज्ञात लोगों ने पैर में गोली मार दी। घायल अंकित को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है वह खतरे से बाहर बताया जा रहा है। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्चाधिकारी व थाना जारचा पुलिस द्वारा मौके पर पहुँची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

#### हजारों श्रद्धालुओं ने गंग नहर में किया स्नान

गाजियाबाद। तडक़े से मुरादनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगनहर पुल पर स्थित छोटा हरिद्वार के नाम से प्रसिघाट पर माघ पूर्णिमा का गंगास्नान करने वाले श्रद्धालूओं का तांता लग गया था। पुलिस अधिकाकियों का यह अनुमान था कि अब तक चार हजार से अधिक श्रद्धालू माघ पूर्णिमा का गंगास्नान कर चुके हैं। इस पवित्र पर्व पर कोई अनहोनी अथवा अप्रिय घटना ना घटित हो इसको दृष्टिङ्टगत रखते हुए एसीपी मसूरी सिद्धार्थ गौतम ने एसओ मुरादनगर शैलेंद्र कुमार सिंह की टीम व फ्लड यूनिट के साथ सुरक्षा की कमान संभाल रखी थी। इस संदर्भ में डीसीपी रूरल सुरेद्रनाथ तिवारी का कहना है कि अभी तक गंगास्नान शांतिपूर्ण एवं संपूर्ण हर्षोल्लास के साथ चल रही है। पुलिस स्नानार्थियों की सुरक्षा के लिए अलर्ट मोड पर है।

#### किसान नेता सहित तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

नोएडा । थाना सूरजपुर में एक व्यक्ति ने एक किसान नेता सहित तीन लोगों को नामित करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है कि वह अपने प्लाट पर काम करवाने गया थाए तभी ये लोग मौके पर आए और उसके साथ मारपीट कर गाली गलौज की तथा जान से मारने की धमकी दी। थाना सूरजपुर के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि राहुल प्रसाद पुत्र बैजनाथ ने बीती रात को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उन्होंने ग्राम तिलपता में एक प्लाट खरीदा था। पीड़ित के अनुसार 10 फरवरी को वह अपने प्लाट पर काम करवाने के लिए गए थेए तभी विपिन खारी पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम तिलपता जो कि खुद को किसान नेता बताता है वह अपने दो अन्य साथियों के साथ प्लाट पर आया। उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। पीड़ित के अनुसार उसने कहा कि दोबारा अगर तुम प्लाट पर आओगे तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा।

#### मारपीट कर गला दबाकर हत्या का प्रयास

नोएडा। थाना नॉलेज पार्क के प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि आर्य पुत्र कृष्ण ने बीती रात को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह कोडली बांगर गांव में रहते हैं। पीड़ित के अनुसार 10 फरवरी को उसका भाई अनुभव उसकी मम्मी घर पर अकेले थे, इसी बीच सलाउद्दीनए फिरोज और साबिर उसके घर पर आए तथा उन्होंने गाली गलौज करनी शुरू कर दी। जब उसके भाई और मां ने गाली गलौज का विरोध किया तो आरोपियों ने उसके भाई और अम्मी के ऊपर ईट से प्रहार किया।

#### PUBLIC NOTICE

#### Public Notice regarding cancellation of property

This Public Notice is from M/S JKG Construction Pvt Ltd for Mr Tarur Kumar bearing unit no. C1-1405 at JKG Palm Court, Plot No. GH-01D Sector 16C, Greater Noida West, Uttar Pradesh-201009.

We have offered possession of your allotted unit in February 2021, basis which we have shared final demand notice of unit C1-1405 on 09.04.2022, 02.06.2022, 16.08.2022, 07.10.2022, 17.08.2024, 24.082024 & 26.08.2024 you failed to make the payment as per fina demand notice. Hence we have cancelled your allotted unit via cancellation intimation letter dated 02.12.2024. Neither got any response from your end nor we have received any payment so far which tantamount to your tacit acceptance that you are no more interested in taking possession of the said flat. Hence your allotted flat C1-1405 is being cancelled on 16.01.2025, as such the allotment has become null & void and you have no claim on the dwelling unit and your deposited amount shall be refunded as per **BBAClaus** 

विकास डब्ल्यूएसपी लिमिटेड						
सीआईएनः L24139HR1988PLC030300						
पंजीकृत कार्यालयः रेलवे रोड सिवानी हरियाणा-127046 भारत						
कॉर्पोरेट कार्यालयः बी-86787, उद्योग विहा	कॉर्पोरेट कार्यालयः ँबी-86∕87. उद्योग विहार, रीको, औद्योगिक क्षेत्र, राजस्थान−335002					
वेबसाइटः www.vikaswspltd.in; ई-मेल आई	डीः csgujanvikaswspltd1984@g	mail.com				
फोनः 91(154) 2494512/2494552,	फैक्सः 31(154) 2494361/24753	376				
30 सितम्बर, 2024 को तिमाही और छह माह समाप्ति हे	तु अलेखापरीक्षित स्टैण्डअलोन वित्ती	ोय परिणामों का विवरण	(रु. लाख में)			
_	तिमाही समाप्ति	छिमाही समाप्ति	वर्ष समाप्ति			
वितरण	00.0	00.0-04 00.0-00	04.84 04			

$\left \right $	丣.	_		तिमाही समापि	r	छिमाई	समाप्ति	वर्ष समाप्ति
	सं.	विवरण		<b>30-June-24</b> (अलेखापरीक्षित)		<b>30-Sep-24</b> (अलेखापरीक्षित)	<b>30-Sep-23</b> (अलेखापरीक्षित)	<b>31-Mar-24</b> (लेखापरीक्षित)
I	1.	परिचालन से कुल आय	6.53	4.98	5.91	11.50	11.72	24.86
	2.	कर, अपवाद और असाधारण मदों से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ∠(हानि)	(872.78)	(876.77)	(871.26)	(1.749.56)	(1,743.41)	(3,549.40)
	3.	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ⁄(हानि), लेकिन अपवाद और असाधारण मर्दो के बाद	(872.78)	(876.77)			(1,743.41)	(3,549.40)
	4.	कर, अपवाद और असाधारण मदों के बाद की अवयि के लिए शुद्ध लाभ7(हानि)	(872.78)	(876.77)	(871.26)	(1,749.56)	(1,743.41)	(2,661.92)
	5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	(872.78)	(876.77)	(871.26)	(1,749.56)	(1,743.41)	(2,644.94)
	6.	भुगतान की गई इक्विटी शेवर पूंजी (शेवर का अंकित मूल्य रु. 1/- प्रत्येक)	2,044.40	2,044.40	2,044.40	2,044.40	2,044.40	2,044.40
	7.	प्रति शेयर आय/(हानि) (गैर-वार्षिकीकृत)						
		(क) प्रति शेयर आय/(हानि) (रु.) (मूलभूत) (ख) प्रति शेयर आय/(हानि) (रु.) (तरतीकृत)	(0.43) (0.43)	(0.43) (0.43)	(0.43) (0.43)	(0.86) (0.86)	(0.85) (0.85)	(1.29) (1.29)

#### 31 दिसम्बर, 2024 को तिमाही और नौ माह समाप्ति हेतु अलेखापरीक्षित स्टैण्डअलोन वित्तीय परिणामों का विवरण

			-					(रु. लाख म
	क्र.		f	तेमाही समाप्ति	ſ	नौ मा	ह समाप्ति	वर्ष समाप्ति
	सं.	विवरण	<b>31-Dec-24</b> (अलेखापरीक्षित)		31-Dec-23 (अलेखापरीक्षित)		31-Dec-23 (अलेखापरीक्षित)	<b>31-Mar-24</b> (लेखापरीक्षित)
	1.	परिचालन से कुल आय	6.53	6.53	5.97	18.03	17.69	24.86
	2.	कर, अपवाद और असाधारण मदों से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	(870.77)	(872.78)	(871.14)	(2,620.33)	(2,614.55)	(3,549.40)
	3.	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि), लेकिन अपवाद और असाधारण मदों के बाद	(870.77)	(872.78)	(871.14)	(2,620.33)	(2,614.55)	(3,549.40)
	4.	कर, अपवाद और असाधारण मदों के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ∕(ज्ञानि)	(870.77)	(872.78)	(871.14)	(2,620.33)	(2,614.55)	(2,661.92)
	5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय	(870.77)	(872.78)	(871.14)	(2,620.33)	(2,614.55)	(2,644.94)
	6.	भुगतान की गई इक्विटी शेवर पूंजी (शेवर का अंकित मूल्य रु. 1/- प्रत्येक)	2,044.40	2,044.40	2,044.40	2,044.40	2,044.40	2,044.40
	7.	प्रति शेयर आय/(हानि) (गैर-वाधिंकीकृत) (क) प्रति शेयर आय/(हानि) (रु.) (मूलभूत) (ख) प्रति शेयर आय/(हानि) (रु.) (तरलीकृत)	(0.43) (0.43)	(0.43) (0.43)	(0.43) (0.43)	(1.28)	(1.28)	(1.29) (1.29)
- 11		1.2	(0.43)	(0.40)	(0.40)	(1.20)	(1.20)	(1.23)

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (''एनसीएलटी''), चंडीगढ़ पीठ ने 2 फरवरी, 2022 को दिए गए अपने आदेश के तहत दिवालियापन और दिवालियापन सॉहेता, 2016 (''कोड'') की धारा 7 के तहत कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (''सीआईआरपी'') शुरू करने की याचिका को स्वीकार कर लिया था और संहिता के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के मामलों का प्रबंधन करने के लिए श्री दर्शन सिंह आनंद, पंजीकरण संख्या - IBBI/IPA-002/IP-N00326/2017-18/10931 को अंतरिम समाधान पेशेवर (''आईआरपी'') नियक्त किया है। 17 मार्च, 2022 को आयोजित लेनदारों की समिति (''सीओसी'') की दसरी बैठक में, श्री दर्शन सिंह आनंद को कंपनी के लिए समाधान पेशेवर (''आरपी'') के रूप में पुष्टि की गई है। सीआईआरपी शुरू करने के लिए एनसीएलटी के आदेश के अनुसार और संहिता के प्रावधानों के अनुरूप, निदेशक मंडल की शक्तियां निलंबित रहेंगी और आरपी द्वारा प्रयोग की जाएंगी।

हमें आरपी द्वारा सूचित किया गया है कि कंपनी का रिकॉर्ड पूरी तरह से आरपी को नहीं सौंपा गया है और इसलिए आईवीसी की धारा 19(2) के तहत आवेदन एनसीएलटी को प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, जैसा कि सीआईआरपी कार्यवाही की शुरुआत के समय प्रबंधन ढारा 15.02.2022 को ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया था कि रेनसमवेयर हमले के कारण 01.04.2021 से पहले टैली डेटा, अचल संपत्ति रजिस्टर और अन्य प्रासंगिक रिक,ई उपलब्ध नहीं थे।

जैसा कि ऊपर नोट संख्या 1 में उल्लेख किया गया है, कंपनी के वित्तीय लेनदारों के आवेदन पर, एनसीएलटी ने कोड के तहत कंपनी के खिलाफ दिवालियापन कार्यवाही शुरू करने के लिए एक याचिका स्वीकार की है। कोड के अनुसार, यह आवश्यक है कि कंपनी को सीआईआरपी के दौरान एक चालू व्यवसाय के रूप में प्रबंधित किया जाए। इसके अलावा, सीआईआरपी के तहत, सीओसी के समक्ष एक समाधान योजना प्रस्तुत की जानी चाहिए और उसे मंजूरी दी जानी चाहिए, जिसके बाद कंपनी को चालू व्यवसाय के रूप में बनाए रखने के लिए एनसीएलटी द्वारा इसे मंजरी दी जानी चाहिए।

सीओसी ने 25 अगस्त 2022 को अपनी बैठक में मेंसर्स आर्कबोल्ट स्पेस एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ढारा प्रस्तुत समाधान बोजना को मंजूरी दे दी है। एनसीएलटी ढारा इसकी मंजूरी लंबित रहने के कारण। झलांकि कंपनी की दीर्घकालिक संभावनाएं सीआईआरपी प्रक्रिया के शीघ्र पूरा होने पर निर्भर हो सकती हैं, लेकिन उपरोक्त तथ्यों और कंपनी के निरंतर संचालन को देखते हए. वित्तीय विवरण चाल वित्त वर्ष के आधार पर तैयार किए गए हैं।

### फर्नीचर मार्किट में लगी आग, करोड़ों रुपये का माल खाक

अंतर्गत भौपुरा के पास स्थित फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। इसी बीच आग लगने की सूचना मिलते ही एसओ टीला मोड़ करतार सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जहां रेस्क्यू करने में जट गए। वहीं सीएफओ राहल पाल की अगुवाई में एक दर्जन से से अधिक फायर टेंडरों ने भयंकर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। आग की विकरालता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जब आग पर काबू करने में फायर ब्रिगेड की एक दर्जन से अधिक गाड़ियों को घंटों तक जूझना पडा वहीं इस अग्निकांड़ में करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई। वहीं कबाड़ के गोदाम शाहिदए जाहिद व जहांगीर आदि के हैं। इस संदर्भ में सीएफओ राहल पाल का कहना है कि फायर ब्रिगेड की तत्परता से जहां जनहानि होने से बच गई वहीं आग के फैलाव पर भी नियंत्रण रखने में सफलता प्राप्त की।

	फैर्ड्स इलेक्ट्रिक ए फ्रीड्क कार्यात्वर. ६ एवं ६। य्यीस्म सीआईएन : L29299UP1957PLC वेवस्वाईर : https://meapi	ईडीसी औद्योगिक क्षे C021118 ई–मेल	त्र सिकंद्राबाद, बुलंद : imcapital983	श्वाहर उ.प्र. 203205 0@gmail.com
	अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन विच			
	31 दिसंबर , 2024 को समाप	त तीसरी तिम	गही के लिए	(रूपये करोड़ में)
			स्टैण्डअलोन	
		समाप्त तिमाही	नौमा <b>ही समा</b> प्ति	समाप्त तिमाही
L	विवरण	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय	93.72	337.27	191.54
2	सामान्य से शुद्ध लाभ/(हानि)कर के बाद की गतिविधयाँ	3.57	31.28	41.01
3	कर पश्चात अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) अपवादित तथा असाधारणमदों के पश्चात	3.97	31.08	41.01
4	कुल व्यापक आय/(हानि)वर्ष के लिए लाभ /	2.33	30.21	41.05
	(ँहानि) सहित वर्ष के लिए (कर के बाढ़) और अन्य व्यापक आय/(हानि) (कर के बाढ़)			
5	इविवटी शेयर पूँजी	30.00	30.00	30.00

UBLIC NOTICE De known to all, SURESH CHANDER SAHU LATE SH. OM PARKASH SAHU & SMT. NAN RANI SAHU W/O SH.SURESH INDER SAHU both R/O HOUSE NO.332, KHANA BAZAR,STREET NO.4,AMBALA ITT, HARYANA-133001 allottee/owner of FLAT NO.50, SECOND FLOOR, BLOCK-0-1, CKET-4,SECTOR-34,ROHINI, DELHI, have lied forcertified copies conveyance deed in The original documents i.e. POSSESSIG R, NOC FOR WATER AND ELECTRICI TER, NOC FOR WATER AND ELECTRICITY NNECTION of the above said flat have been .An UR NO 2579346/2025 dated 12/02/20 to this effect has been lodged in P.S. Crime nch, Delhi.Anv person(s) claiming any right, session of original documents, may write/ tact with above named person at above ress/Phone No. 8860292988 within 15days n the date of publication of this notice. The son claiming any right, interest, objection h respect to this property, can personally Director(Housing), Delhi Development hority, Vikas Sadan, New Delhi-110023.

तो उसे जॉर्डन में नौकरी के बारे में

बताया गया।

PUBLIC NOTICE

समेकित

31.12.2024 31.12.2024

नौ माह

26.47

20.84

20.84

9.03

5.145.05

24.00

3.76

3.76

वर्ष समाप्ति

31.12.2023

23.93

19.31

19.31

19.31

1.105.91

24.00

8.05

8.05

तिमाई

समाप्ति

18.52

16.83

16.83

10.04

3.316.41

24.00

4.18

4.18

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा में 10 करोड़ रुपए की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है नौकरी दिलाने के नाम पर लगभग 550 लोगों

फरार हो गया है नोएडा के सेक्टर-63 में फ्लाई विजन एंटरप्राइजेज नामक कंपनी ने 550 लोगों से 10 करोड रुपए की ठगी की है। फ्लाई विजन एंटरप्राइजेज नामक कंपनी के जरिए लोगों को जॉर्डन भेजने का झांसा दिया गया और उनसे लाखों रुपए वसूल लिए गए। जिस दिन इन लोगों को विदेश जाना था तो यह कंपनी पर पहुंचे तो उनके होश उड गए। पीडितों को ऑफिस बंद मिला और कंपनी का

मालिक फरार। इस बात से नाराज

होकर पीड़ितों ने कंपनी के बाहर

🗕 ५५० लोग हुए

विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर

जाल में बेरोजगारों को फंसाया। मैकेनिक की नौकरी दिलाने का झांसा से 10 करोड रुपए ठग लिए गए हैं। देकर 550 लोगों से करोडों रुपए की कंपनी बंद करके उसका मालिक ठगी कर ली। पीड़ित विदेश जाने की तारीख पर कंपनी के कार्यालय पहुंचे तो मालिक फरार मिला। इस पर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। गोरखपुर निवासी दीनानाथ चौहान ने बताया कि लंबे समय से वह बेरोजगार हैं। वह इंटरनेट पर नौकरी के बारे में सर्च कर रहे थे। एक साथी ने उनको फॉरेन जॉब सर्च साइट पर एक कंपनी के बारे में जानकारी दी। साइट पर दिए गए नंबर पर दीनानाथ से संपर्क किया

नोएडा में विदेश भेजने के नाम पर १० करोड़ रुपये की ढगी **गाजियाबाद।** टीला मोड़ थाना क्षेत्र शिकार, आरोपी फरार

- ऊपर नोट संख्या -1 में उल्लिखित कारणों के लिए. कंपनी ने ''रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं'' पर इंड-एएस 10 दारा अपेक्षित वित्तीय परिणामों की तैयारी में मर्त परिसंपत्तियों के वहन मुल्य पर किसी भी प्रभाव को थ्यान में नहीं रखा है, यदि कोई हो। इसके अलावा, कंपनी ने मुर्त परिसंपत्तियों के मुल्य में 31 दिसम्बर 2024 को परिसंपत्तियों की हानि पर 36 के रूप में इंडस्ट्रीज द्वारा आवश्यक उनके उचित मुल्य में अपनी हानि का पूर्ण मुल्यांकन भी नहीं किया है। कंपनी मुर्त परिसंपत्तियों के वहन मुल्य की डानि का आकलन करना जारी नहीं रखती है।
- उपरोक्त पैरा-1 में उल्लिखित कारणों के लिए, कंपनी ने वित्तीय साधनों की वहन राशि में आवश्यक किसी भी समायोजन और परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, को 31 दिसम्बर 2024 को समाप्त अवधि और वर्ष के लिए रिपोर्ट किए गए नुकसान पर विचार नहीं किया है, जो सभी परिसंपत्तियों की वहन राशि की व्यापक समीक्षा लंबित है (माल और सेवा कर और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों के तहत शेष राशि सहित) और व्यापार प्राप्य सहित देनदारियों. 31 दिसम्बर, 2024 तक भुगतान किए गए अग्रिम, व्यापार देयता, प्राप्त अग्रिम, अन्य अल्पकालिक देनवारियां आदि जो अपष्ट हैं और एनसीएलटी द्वारा अनमोदित समाधान योजना के लंबित कार्यान्वयन के कारण परिसंपत्तियों के वहन मल्य की हानि और देनदारियों को वापस लिखने के लिए गैर-प्रावधान के साथ-साथ परिसंपत्तियों के वहन मूल्व की हानि के लिए गैर-प्रावधान के साथ कोई दस्तावेजी सांस्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। वित्तीय आस्तियों और देयताओं के उचित मूल्य का निर्धारण न करना और अन्य आस्तियों और देयताओं के लिए वहन राशि वहन करने में हानि इंड-एएस-109 ''वित्तीय साधन'', इंड-एएस-10 ''रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएं'', इंड-एएस-36 ''आस्तियों की हानि'' और इंड-एएस-37 ''प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक आस्तियां'' के अनपालन में नहीं हैं।
- माननीय एनसीएलरी द्वारा नियक्त समाधान प्रेंगेवर ने कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया अर्थात 02-02-2022 के शरू होने की तारीख को स्टॉक की मात्रा और वसली योग्य मूल्य को सत्यापित करने के लिए स्टॉक ऑडिटर नियुक्त किया था। ऐसी स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर, कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू होने की तारीख के . साथ-साथ चालू वित्तीय वर्ष के अंत में 31-12-3024 तक क्लोजिंग स्टॉक को रु. 207. 38 लाख माना गया है।
- समाधान पेशेवर को निश्चित संपत्ति रजिस्टर और पूर्व प्रबंध द्वारा मुल्यक्षस के पिछले विवरण नहीं सौंपे गए हैं, इसलिए मुल्यक्षस को एसएलएम आधार पर मापा जाता है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी और भिन्न हो सकती है।
- समाधान पेशेवर को सभी अचल संपत्तियों के मालिकाना हक के दरलावेज नहीं मिले हैं। अन अचल संपत्तियों का व्यौरा (अचल संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पटेदार है और पड़ा करार कंपनी के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए जाते हैं) संपत्ति. संयंत्र और उपकरणों और उपयोग के अधिकार में शामिल वित्तीय विवरणों में शामिल हैं। बैलेंस शीट की तारीख पर कंपनी का नाम उपलब्ध ∕खलासा नहीं किया जा सकता।
- कॉर्पोरेट देनदार के पूर्ववर्ती प्रबंधन द्वारा रिजॉल्पूशन प्रोफेशनल को अधिक सामग्री जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और परिणामस्वरूप, समाधान पेशेवर वैधानिक लेखा परीक्षकों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है। कॉर्पोरेट देनदार के पूर्ववर्ती प्रबंधन से सूचना और कागजात के अपने अधिकार को लागू करने के लिए समाधान पेशेवर ने भारतीय दिवालियापन संहिता-2016 की धारा 19 (2) के तहत माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ बेंच के साथ एक आवेदन, आवेदन पत्र IA.NO. 764/2022 के साथ वायर किया है।
- कंपनी के वित्तीय परिणाम कंपनी (''भारतीय लेखा मानक'') संशोधन नियम, 2015 के तहत अधिसचित भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी-एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं, जैसा कि कंपनी (भारतीय लेखा मानक, संशोधन नियम, 2016) द्वारा संशोधित किया गया है। ये वित्तीय परिणाम भारतीय लेखा मानक 34 (आईएनडी-34) में निर्धारित मान्यता और माप सिछांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित ''अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग'' इसके तहत जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पठित और अन्य लेखा सिखांत आमतौर पर भारत में स्वीकार किए जाते हैं. परिपत्र के साथ पटित कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है और कंपनी के समाधान पेश्रेवर द्वारा अनमोदित किया गया है।
- इंड एएस 108 के अनुसार ''ऑपरेटिंग सेगमेंट'' की रिपोर्ट मुख्य ऑपरेटिंग निर्णय निर्माता को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप तरीके से की जाती है। तदनुसार, 10. सेगमेंटल रिपोर्टिंग ग्राहक के भौगोलिक स्थान के आधार पर की जाती है जिसका उपयोग कंपनी के मुख्य वित्तीय निर्णय निर्माता द्वारा उपलब्ध संसाधनों और भविष्य की संभावनाओं के आवंटन के लिए भी किया जाता है। कंपनी के भौगोलिक खंडों में मुख्य रूप से अमेरिक, यूरोप, भारत (घरेलू) और अन्य देशों में स्थित ग्राहक शामिल है। खंडों के संबंध में आय को उन मदों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जो व्यक्तिगत रूप से उन खंडों से पहचाने जाते हैं। किसी भी रिपोर्ट योग्य खंड में कंपनी के व्यवसाय में उपयोग किए गए व्यय, अचल संपत्तियों या अनुबंधित देनदारियों की पहचान करना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि व्यय, संपत्ति और देनदारियों का उपयोग खंडों के बीच परस्पर रूप से किया जाता है। तदनुसार, कुल खंड परिणामों, कुल खंड परिसंपत्तियों और देनदारियों से संबंधित कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।
- माननीय एनसीएलटी-चंडीगड पीठ के दिनांक 02-02-2022 के आदेश के पैरा 14 द्वारा अधिस्थगन लगाए जाने के महेनजर तिमाही के दौरान बैंकों, संस्थानों-अन्य संगठनो को देव बकाया राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया गया है
- समाधान पेशेवर को कामगारों का दावा प्राप्त हुआ है, जिसे ऋणवाता समिति खारा 08.08.2023 को संपन्न मतदान में 49,62,72,600/- रुपये के लिए स्वीकार किया गया 12. है। हालांकि कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार कामगारों को देय राशि 23,34,76,371 /- रुपये है, इसलिए कंपनी पर 26,27,99,829 /- रुपये की आकस्मिक देयता है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	31-03-2022 के वित्तीय विवरण के अनुसार	दिनांक 08-08-2023 को सीओसी के अनुमोदन से स्वीकृत राशि	अंतर
वेतन और बोनस देव	19,51,90,451/-	40,85,85,898/-	21,33,95,447/-
ग्रेच्युटी देय	3,82,85,920/-	8,76,90,302/-	4,94,04,382/-
कुल	23,34,76,371/-	49,62,76,200/-	26,27,99,829/-

- 13. आपूर्तिकर्ताओं को क्रमशः 20.43 लाख रुपये और 6674.75 लाख रुपये की पूंजीगत अग्निम और अग्रिम पुष्टि के अधीन है और इसकी वसूली संदिग्ध है। माननीय रन्सीएलटी-चंडीगढ़ पीठ के समक्ष प्रस्तुत समाधान योजना के अनुमोदन के लिए लंबित वित्तीय विवरणों में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 14. वैट वसुली योग्य और जीएसटी क्रेडिट प्राप्य शेष राशि 142.09 लाख रुपये की राशि समाधान के अधीन है।
- 15. रुपये 297.32 लाख की सीमा तक बैंक शेष की पुष्टि नहीं की गई है और यह समाधान के अधीन है।
- 16. वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार विवरणों की तुलना और बेहतर प्रस्तुति को सुविधाजनक बनाने के लिए, जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछली अवधि/वर्ध के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत⁄पुनर्वुयवस्थित किया गया है।
- 17. त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का प्रारूप बॉम्चे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट और कंपनी की वेबसाइट ("www.vikaswspitd.in") पर उपलब्ध है।



विकास डब्ल्यूएसपी लिमिटेड (सीआईआरपी के तहत कंपनी) हेतु और उसकी ओर से, हस्ता/-दर्शन सिंह आनंद रिजोल्युशन प्रोफेशनल IBB/IPA-002/IP-N00326/2017-18/10931

स्थानः दिल्ली दिनांकः 11.02.2025



अलेखापरीक्षित त्रैमासिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। त्रैमासिक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.cse-india.com और कम्पनी की वेबसाईट (https://saneh.in/) पर उपलब्ध है। 2) उपरोक्त परिणाम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (Ind AS) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों के सिद्धांत और प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं। 3) उपरोक्त अलेखापरीक्षित (स्टैंडअलोन और समेकित) वित्तीय परिणामों की कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 11 फरवरी, 2025 को आयोजित बैठक



#### For M/S JKG Construction Pvt Ltd

दी कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि सी-29, सामुदायिक केंद्र, पंथा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, फोन न. 011-25611042, 25611043, 25611044 मेत्रः legal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com, वेपसार्ट्रः www.kangrabank.com

परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेत्)

रेसां कि रपोडस्तावसी विसीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं युनॉर्नेमॉण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 2002 का 54) के तहत ''दी कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि.'', मुख्य कार्यालय, सी-29, सामुदायिक केंद्र, पंख ोड, जनक पुरी, नई दिल्ली - 110058, जिसका पंतीकृत कार्यालय 1916, घूना मंडी, पायडगंज, नई दिल्ली -(लाख रुपये में) 110055 का प्राविकत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभति हित (प्रवर्तन) निषम, 2002 के निषम(3) के साथ हित धारा 13(12) के तहत प्रदन्त शक्तियों के अंतर्गत उ**धारकर्ता श्री अतुल त्यांगी पुत्र श्री नरेश त्यांगी, 739**, रलआईनी फ्लैट्स, पीकेट- ।।, हस्तसाल, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059, और: श्री अतुल त्यागी पुत्र श्री नरेश त्यांगी, बी-18ए, रामा पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ती-110059 और बंधककर्ता एवं जमानतवार क्रीमती प्रीति त्यांगी पत्नी क्षी नरेश त्यांगी, निवासी 739, एलआईमी क्लैट्रस, पॉकेंट-11, हस्तसाल, उत्तम नगर, नई विल्ती-110059 और बीमती प्रीति त्यांगी पत्नी बी नरेश त्यांगी, बी-18ए, रामा पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 जमानतवार श्री मपूर त्यांगी पुत्र श्री नरेत्र त्यांगी निवासी 739, एलआईजी फ्लैट्स, पॉकेंट- I L हस्तसाल, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059, को एक मांग सूचना दिनांक 25.09.2024 को जारी किया गया बा जिसमें सूचना में उल्लियित राशि रू. 45,75,718/- (रुपये पैतालीस लाख पिचडतर इजार सात सी अद्यारह मात्र) तथा साथ में भविष्य वह ब्याज, धीनल ब्याज एवं अन्य प्रभार सचना की तिथि से भगतान की तिर्ग क समय-समय पर इस ऋण खाते में प्रयोज्य जन्य प्रभार इत्यादि सहित उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर भगतान करने को कठा गया है।

उपर्युक्त उपारकर्ता, बंधककर्ता और जमानतदार रात्रि का पुनर्भगतान में असपक्ष रात्रे के कारण एतज्ञार पर्युक्त उपारकतां, बंधककतां, जमानतदार एवं जनसामान्य को सुचित किया जाता है कि बैंक ने सम्पत्ति का रोकेंतिक कब्जा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम (8) के साथ पटित विशीय आस्तियों वे प्रतिभतिकरण पर्व प्रतर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनिषम, 2002 की धारा 13 की उपथारा (4) के हात प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यहां नीचे वर्णित सम्पति पर **06 फरवरी, 2025** को कामा ले लिया है।

उपर्युक्त उधारकर्ता, बंधककर्ता और जमानतवार तथा विशेष रूप से तथा जनसामान्य को एतबारा बंधक सम्पन्ति साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार ''दी वरंगइ को-ऑपरेटिव वैंक लि.", के प्रभार वास्ते रु. 45,75,718/- और ऋण खाते पर समय-समय पर लागू होने वाले अविरिक्त ब्याज, दंडात्मक ब्याज और अन्य मुख्ये, नोटिस की तिपिस से दिस प्रता के प्राय से प्रमुखा के साथ उक्त राशि की वस्तूली में बैंक द्वारा वहन की गई सभी लागती सहित के अधीन होगा।

पर्युक्त उपारकर्ता, बंधककर्ता और जमानतवार का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में, नीचे उल्लिखित बंधव संधति/सुरक्षित संपति को छुड़ाने के लिए, विश्वीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा-13 की उप-धारा-(8) के प्रावधानी की और भी आवर्षित केया जाता है।

विचाराचीन संपत्ति के सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि निर्मित सम्पत्ति नं. बी-18ए, खर, सम्पूर्ण भिर्मित खेत्रफल 125 वर्ग गज, खसरा नं. 571 में से, गाँव नवादा के क्षेत्र में, और सम्पति खेवसन 125 कॉलोनी जिसे रामा पार्क के नाम से जाना जाता है, ब्लॉक-बी, उत्तम नगर, वर्ग गन नई दिल्ली–110059, उक्त संपत्ति के अंतर्गत मूमि के फ्रीहोल्ड अधिकार के साथ, सब-रजिस्ट्रार-।।, जनकपुरी, नई दिल्ली के पंजीकरण के अंतर्गत

	थनः सड़क 15' चौड़ी, उत्तर में – फॉट सं. बी-19, दक्षिण में – फॉट सं
बी-18 का माग	(मीनासी करत)
	प्रायिकृत अधिकारी
	वी कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटे
स्थान : दिल्ली	मुख्यालयः सी-29, सामुदायिक केंद्र,
विनांकः 06.02.2025	र्पणा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली-58

प्रोजेक्ट कार्यालय स्थानः दिल्ली दिनांक : 12.02.2025

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा पंजीकृत कार्यालय- 201-205, 208-210 द्वितीय मंजिल, प्रताप भवन, 5 ,बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाषः 011-69342500, 46035729 से प्रकाशित तथा जागरण प्रकाशन लिमिटेड, डी-210, 211 सेक्टर 63 नोएडा फोन नंबर 020465800 एक्सटेंशन 142, से मुद्रित। प्रधान सम्पादक: शोबोरी गाँगुली। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं।

वेबसाइट, www.bseindia.com और https://imcapitals.com/fedders-e



विवरण

अवधि हेतु शुद्ध लाभ (कर पूर्व, आपवादिक

कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ (आपवादिक और⁄या

और अन्य कुल व्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल

इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक का रु. 10/- मूल्य)

कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाभ (आपवादिक और/या

संचालन से कुल आय (निवल)

और/या आसाधारण मद)

आसाधारण मद पश्चातू)

आसाधारण मद पश्चात्)

(क) मूलभूत (रु.)

(ख) तरलीकृत (रु.

टिप्पणियाँः

अवधि हेतु कुल व्यापक आय

(अवधि हेतु लाभ (कर पश्चात्)

प्रति शेयर आय (असाधारण मद पूर्व)

(प्रत्येक 10/- रुपये का अंकित मूल्य)

में समीक्षा और अनुमोदन किया गया।

6 प्रति शेयर आय (वार्षिक नहीं)

बेसिक : (₹)

डाइल्यूटेड : (₹)



1.32

1.32

ों का पूर्ण प्रार	ज्य बेबसाइट पर उप	ाल <b>ब्ध है</b> । स्टॉक एक्स
www.ns	eindia.com ai	रि कंपनी की बेबस
lectric-eng	ineering/	बोर्ड के आदेशान
! 🗖	फैर्ड्स इलेक्टिव	<sup>5</sup> एंड इंजीनियरिंग लि <sup>7</sup>
1 <del>5</del> 5		- हस्त
iš.	विशाल	सिंघल (प्रबन्ध निदेश
1.1.1.1		

गइट सा मेटेड त0-(क

सनेह इंडस्टियल इन्वेस्टमेंटस लि.

रजि. कार्यालयः डेल्टन हाउस 4801 भरत राम रोड 24 दरियागंज नई दिल्ली-110002

सीआईएनः L74899DL1980PL060079, फोन नं. 011-45795859, वेबसाईट https://saneh.in/, ईमेल sanehltd@gmail.com

31 दिसम्बर 2024 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

तिमाही

समाप्ति

31.12.2024

4.10

3.41

3.41

3.06

880.20

24.00

1.28

1.28

1) उपरोक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर

10.36

10.36

परावाण। ावया गया हा। 2उपरोक्त सेबी (सचीबद्धता बायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सरोजों के साथे बायर लेखापरीक्षित स्टॅण्डअलोन तिमाही और वार्षिक परिणामों के विस्तृत प्रास्प का एक साराशा है। लेखापरीक्षित स्टॅंडअलोन परिणामों का पूर्ण प्रास्प वेबसाइट पर उपलब्ध है। स्टॉक एक्सचेज

स्टैंडअलोन

नौ माह

4.10

0.27

0.27

(0.07)

1.371.25

24.00

(0.03)

(0.03)

तिमाई

समाप्ति

1.07

(0.28)

(0.28)

(0.28)

287.01

24.00

(0.12)

(0.12)

31.12.2024 31.12.2023

13.67

13.67

PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that my cleint Veena Sharma is the owner as well as one of the shareholder in Girafte Advertising and Marketing Private Limited is in process to avail the credit facility against her Plot Bearing No. BA, area messuring 350 sg. vards i.e. 317.716 sg. intrs, out of Massa No. 301, in the revenue estate of village Fraitad Barin, Tethsil and District Gharabad. UP Availing loar from AU Small Finance Bank), raving acquired the same vice Sale Deed dated 26/8/2024 Doc no.11231 executed by Gurpnet Singh Bala All personis having any claim against or in respect of the said Property, or any part thered, by way of sale, exchange, mortgage (equitable/reguistered or otherwise), gift, trust, inheritance, family arrangement, maintenance, begust, perinership, possession, lease, sublease, tenancy, license, lien, charge, plede, easement or otherwise howscever, are hereby requisated to notify the same in writing to us with supporting documentary evidence at the address mentioned below within 07 days from the date hereof, faling wrich the claim or claims, if any, of such person or presons will be considered to lave been waived and/or abandoned. Kamal Kant Cupter (Advocate) Uni, No. FF-2, First floor, Mahaluxmi Metro Tower Sec-4, Vaishali, Gzb., U.P., Nob. 9810063351 उपरोक्त परिणामों की समीक्षा की गई और लेखापरीक्षा समिति द्वारा सिफाश की र्य और निदेशक मंडल द्वारा 11 फरवरी, 2028को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में अनुमोदित किया गया। कम्पनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तीसरी तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों का लेखा परीक्षण किया प्रयाहे। जीन: 03518795